

प्रेस नोट दिनांक 09.07.2021

इटावा पुलिस द्वारा वांछित हत्यारोपी को घटना में प्रयुक्त लकड़ी के डंडे सहित किया गया

गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 बृजेश कुमार सिंह के दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना चौबिया पुलिस द्वारा वांछित हत्यारोपी को घटना में प्रयुक्त लकड़ी के डंडे सहित किया गया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.06.2021 को वादी इन्द्रपाल सिंह द्वारा थाना चौबिया पर सूचना दी गयी कि दिनांक 11.06.2021 को मेरे बेटे अनिल कुमार की हत्या उसके साथी सचिन, दीपक, आदेश, धर्मवीर, विनोद, अजय आदि द्वारा पीट पीटकर दी गयी है । उक्त घटना के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा व अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

घटना की गम्भीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी थी ।

गठित टीम द्वारा घटना में संलिप्त 02 हत्यारोपियों धर्मवीर व अजय को दिनांक 12.06.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं पुलिस टीम अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयासरत थी । इसी के क्रम में आज दिनांक 09.07.2021 को थाना चौबिया पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की थाना चौबिया पर पंजीकृत अभियोग 82/2021 धारा 147/34/302 भादवि के नामजद वांछित अभियुक्त आदेश उर्फ दिनेश लोहिया पुल के पास कही जाने की फिराक में खडा है । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर अभियुक्त आदेश को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए घेरकर पकड लिया गया ।

पुलिस पूछताछ:-

पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से हत्या के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर उसने बताया मैंने सचिन, दीपक, धर्मवीर, अजय व विनोद के साथ मिलकर अनिल की हत्या कर दी थी । अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त लकड़ी के डंडे को बरामद कर लिया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. आदेश उर्फ दिनेश पुत्र जगदीश निवासी गोपालपुर थाना चौबिया इटावा

बरामदगी:-

1. आलाकत्ल लकड़ी का डंडा

पुलिस टीम:- उ०नि० मुकेश कुमार सोलंकी प्रभारी थाना चौबिया इटावा, उ०नि० लक्ष्मीनारायण, का०  
1184 आदेश कुमार

सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
जनपद इटावा